



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 23, 2005/माघ 3, 1926

No. 19]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 23, 2005/MAGHA 3, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2005

सं. 394/99/2004-सीमा शुल्क(तस्करी रोधी).—राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस, 2005 के अवसर पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के निम्नलिखित प्रत्येक अधिकारी को उल्लेखनीय विशिष्ट सेवा के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

उल्लेखनीय विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति प्रशंसा प्रमाण-पत्र

क्रम. सं.	नाम	अधिकारी का पदनाम	मौजूदा तैनाती
(1)	(2)	(3)	(4)

आयुक्त/अपर महानिदेशक

1.	श्री अजित कुमार	सीमा शुल्क, आयुक्त	निर्यात (समुद्र पत्तन), चैन्नई
2.	श्रीमती जगजीत पावड़ीया	आयुक्त	विधि कार्य निदेशालय, नई दिल्ली
3.	श्री बी. एस. वी. मूर्ती	ए.डी.जी.	राजस्व आसूचना निदेशालय, चैन्नई

अपर आयुक्त/अपर निदेशक/संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निदेशक

1.	श्री रंजन कुमार साहू	अपर निदेशक	राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता
2.	श्री एन. वेंकटेश	अपर निदेशक	प्रणाली निदेशालय, दिल्ली
3.	श्री सुरेश नारायण प्रसाद	अपर आयुक्त	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दमन
4.	श्री आलोक शुक्ला	निदेशक, टी.आर.यू.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली

(1)	(2)	(3)	(4)
उप निदेशक/उप आयुक्त/सहायक निदेशक/सहायक आयुक्त			
1.	श्री विनय कुमार सिंह	उपायुक्त	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सी सी ओ, मुम्बई-के.उ.शु. 1
2.	श्री मदन मोहन	सहायक निदेशक	डी जी सी ई आई, डी जे यू दिल्ली
3.	श्री नरेश कुमार बोर्ड,	सहायक निदेशक नई दिल्ली	न्यायिक प्रकोष्ठ, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क
अधीक्षक/वरिष्ठ आसूचना अधिकारी			
1.	श्री डी बी आर नागपाल दिल्ली	अधीक्षक	हवाई सीमा शुल्क, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली
2.	श्री आर राजेन्द्रन	अधीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद 2
3.	श्री के. पी. रानना	अधीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद 1
4.	श्री पार्थ प्रतीम बासु	वरिष्ठ आसूचना अधिकारी	राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता
5.	श्री जे. टेरेन्स, रोडरागो	वरिष्ठ आसूचना अधिकारी	राजस्व आसूचना निदेशालय, चैन्नई
6.	श्री चन्द्र भाल सिंह	वरिष्ठ आसूचना अधिकारी	डी जी सी ई आई (मुख्यालय), नई दिल्ली
7.	श्री हृदय सिंह	वरिष्ठ आसूचना अधिकारी	डी जी सी ई आई (मुख्यालय), नई दिल्ली
8.	श्री अनिल शर्मा	वरिष्ठ आसूचना अधिकारी	डी जी सी ई आई (डी जेड यू), नई दिल्ली
9.	श्री याकू आदुला दौलती	वरिष्ठ आसूचना अधिकारी	डी जी सी ई आई (ए जेड यू)।
10.	श्री एस. ए. हरी प्रकाश	वरिष्ठ आसूचना अधिकारी	डी जी सी ई आई (बी जेड यू)।
11.	श्री राधाकृष्णन बी अय्यर	वरिष्ठ आसूचना अधिकारी	डी जी सी ई आई (एम जेड यू)।
12.	श्री संतोष कुमार सिंह	अधीक्षक	नोयडा
13.	श्री डी. डी. कौशिक	अधीक्षक	दिल्ली-1
14.	श्री सी. एन. मधुसूदन	अधीक्षक	बंगलौर-1
निरीक्षक/आसूचना अधिकारी			
1.	श्री बिरेन्द्र कुमार थापिलयाल	आसूचना अधिकारी	राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली
2.	श्री सौमाया जी नारायणन	एम जी एस	आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई
3.	श्री यू. ए. गुप्ते	आसूचना अधिकारी	डी जी सी ई आई (एम जेड यू)
ड्राइवर			
1.	श्री बी. राजेन्द्रन	ड्राइवर	राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली
हैड हवलदार			
1.	श्री शिव दत्त	हैड हवलदार	राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली

ये पुरस्कार सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने संबंधी उस योजना के पैरा-1 के खण्ड (क) (ii) के अन्तर्गत दिए गए हैं जो भारत के राजपत्र, आसाधारण के भाग-1, खण्ड 1 में 5 नवम्बर, 1962 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. 12/139/59-प्रशा. 3(ख) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

सुभाष चन्द्रा, सदस्य (राजस्व आसूचना एवं जांच)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2005

No. 394/99/2004-Cus (AS).—The President is pleased to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service, to each of the under mentioned officers of the Customs and Central Excise Department on the occasion of Republic Day, 2005 :—

Presidential Award of Appreciation Certificate for Specially Distinguished Record of Service

Sl. No.	Name	Designation	Present posting of the officer
(1)	(2)	(3)	(4)

Commissioners/Additional Directors-General

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Shri Ajit Kumar | Commissioner of Customs | Export, (Sea Port), Chennai. |
| 2. Smt. Jagjit Pavadia | Commissioner | Dte. of Legal Affairs, New Delhi. |
| 3. Shri B.S.V. Murthy | ADG | DRI, Chennai. |

Additional Commissioners/Additional Directors/Joint Commissioners/Joint Directors :

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Shri Ranjan Kumar Sahoo | Additional Director | DRI, Kolkata. |
| 2. Shri N. Venkatesh | Additional Director | Directorate of Systems, Delhi. |
| 3. Shri Suresh Narayan Prasad | Additional Commissioner of Central Excise | Daman |
| 4. Shri Alok Shukla | Director | TRU, CBEC, New Delhi. |

Deputy Directors/Deputy Commissioners/Assistant Directors/Assistant Commissioners

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Shri Vinay Kumar Singh | Dy. Commr. of Central Excise | CCO, Mumbai-1. |
| 2. Shri Madan Mohan, | Assistant Director | DGCEI, DZU, Delhi. |
| 3. Shri Naresh Kumar | Assistant Director | Judicial Cell, CBEC, New Delhi. |

Superintendents/Senior Intelligence Officers

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Shri D.B.R. Nagpaul | Supdt., Air Customs | IGI, New Delhi. |
| 2. Shri R. Rajendran | Supdt. | Central Excise, Hyderabad-II. |
| 3. Shri K.V. Ramana | Supdt. | Central Excise, Hyderabad-I. |
| 4. Shri Partha Pratim Basu, | SIO | DRI, Kolkata. |
| 5. Shri J. Terrance Rodrigo | SIO | DRI, Chennai. |
| 6. Shri Chandra Bhal Singh | SIO | DGCEI (Hdqs.), New Delhi. |
| 7. Shri Hirdey Singh | SIO | DGCEI (Hdqs.), New Delhi. |
| 8. Shri Anil Sharma | SIO | DECEI, (DZU), New Delhi. |
| 9. Shri Yakub Abdula Daulti | SIO | DGCEI (AZU). |
| 10. Shri S.A. Hari Prakash | SIO | DGCEI (BZU). |
| 11. Shri Radhakrishnan V. Iyer | SIO | DGCEI (MZU). |
| 12. Shri Santosh Kumar Singh | Supdt. | Noida. |
| 13. Shri D.D. Kaushik | Supdt. | Delhi-1. |
| 14. Shri C.N. Madhusudan | Supdt. | Bangalore-1. |

(1)	(2)	(3)	(4)
Inspectors/Intelligence Officers			
1.	Shri Birender Kumar Thapliyal	IO	DRI, New Delhi.
2.	Shri Soniyaji Narayanan	M.G.S., IO, DRI	Mumbai.
3.	Shri U.A. Gupte	IO	DGCEI (MZU)
Driver			
1.	Shri V. Rajendran	Driver	DRI, Chennai.
Head Hawaldar			
1.	Shri Shiv Dutt	Head Hawaldar	DRI, New Delhi.

These awards are made under clause (a) (ii) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Department, Narcotics Control Bureau and Directorate of Enforcement, as published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, Notification No. 12/139/59-Ad.III(B) dated 5th November, 1962, as amended, from time to time.

SUBHASH CHANDRA, Member (Revenue Intelligence & Investigation)